

August 08, 2025

To, The Secretary, Listing Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001 Scrip Code: 543591	To, The Listing Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051 Symbol: DREAMFOLKS
--	---

Subject: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir(s)/ Madam(s),

Please find enclosed copies of newspaper advertisements relating to extract of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025. The advertisements were published on August 08, 2025 in editions of Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) newspapers. The said Results were approved by Board of Directors of the Company at its Meeting held on August 07, 2025.

The advertisements can also be accessed at the website of the Company at www.dreamfolks.com.

You are hereby requested to take the above intimation on record.

Thanking You!

Yours Faithfully


For Dreamfolks Services Limited



Harshit Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

DreamFolks



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on August 07, 2025, approved the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results").

The unaudited Financial Results along with the Limited Review Report, have been hosted on the Company's website at <https://www.dreamfolks.com/results-and-reports.html> and can be accessed by scanning the QR Code.

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 47(1) read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board
Dreamfolks Services Limited
Sd/-
Chairperson and Managing Director
DIN: 06849082

Place: Gurugram
Date: August 07, 2025

Dreamfolks Services Limited, Regd. Office: 26, DDA Flats, Shivalik Road, Panchsheel Park, South Delhi, New Delhi-110017
Tel.: 0124-4037306, **Email:** investor.support@dreamfolks.in, **Website:** www.dreamfolks.com, **Corporate Identification No. (CIN):** L51909DL2008PLC177181

Lounge Access Meet & Assist Spa Services F&B Offerings Airport Transfers Transit Hotels Golf VISA Services eSIM



ORIENT ELECTRIC LIMITED
CIN: L31100OR2016PLC025892
Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhojnagar, Bhubaneswar, Odisha-751012
Corporate Office: 240, Okhla Industrial Estate, Phase -III, Okhla New Delhi - 110020
Tel: 011-40507000
E-mail: investor@orientelectric.com, **Website:** www.orientelectric.com

NOTICE
Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months from July 07, 2025, to January 06, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer request of physical shares.

The above-mentioned special window is specifically open for such transfer request cases which were lodged prior to deadline of April 01, 2019, and the same were rejected/returned/not attended due to deficiencies in documentation or were not processed due to any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window.

Eligible shareholders may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at M/s KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Panakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032. (Tel No.: 1800-309-4001) within stipulated period.

All the shareholders are requested to update their E-mail id(s) with Company / RTA / Depository Participants.

For Orient Electric Limited
Sd/-
Diksha Singh
Company Secretary
(ICSI Membership No. A44999)

New Delhi
August 07, 2025

On the eve of the 144th Birth Anniversary of our founder, Sir Sorabji Pochkhanawala,

We thank our Stakeholders for their continued patronage.

Our Offerings

1 New Savings & Current Deposits

- Cent Queen - Specially crafted for women
- Cent Salary - More offerings per account
- Cent Vyapaar - Keeps you digitally ahead

2 Wealth Management

- At a click, access our Wealth Management Products (easy and fast)
- Life Insurance, General Insurance, Mutual Funds, Demat, SIP

3 Women Empowerment

- Cent Grih Lakshmi
- Cent Queen
- Cent EV 2 Wheeler
- Stand - Up India
- 90 Dedicated women branches pan India

Attractive and hassle-free Retail and MSME loans

www.centralbankofindia.co.in | Follow us on: [f](#) [i](#) [t](#) [x](#) [in](#) [p](#) [Centralbankofindia](#) | Message us on [WhatsApp](#) 7900123123

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)

NOTICE INVITING E-TENDER
CONCOR invites E-Tender in Single Packet System of tendering for the following work:

Tender No.	CONCOR/ECT/AN/CD/AM/DEEP&MNP/THA/AM/773/2025
Name of Work	Annual Maintenance Contract Services pertaining to Substation and Electrical Installations at ICD-Mandideep and MNP-THI Terminals.
Estimated Cost	Rs. 1,60,40,008/- (Inclusive of GST)
Completion Period	24 Months
Earnest Money Deposit	Rs. 1,20,000/- through e-payment
Cost of Tender Document (Non-refundable)	Rs. 1,120/- (inclusive all taxes & duties through e-payment)
Tender Processing Fee (Non-refundable)	Rs. 3,540.00/- (inclusive all taxes & duties through e-payment)
Date of sale of Tender (online)	From 08.08.2025 (14:00 Hrs.) to 28.08.2025 (up to 11:00 Hrs.)
Date & Time of submission of Tender.	28.08.2025 up to (11:30 Hrs.) (E-Tendering Mode Only)
Date & Time of Opening of Tender.	28.08.2025 at (16:00 Hrs.)

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to detailed tender notice available on website www.concordia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tenderwizard.com/CIL only. Further, Contingendum/Addendum to this tender, if any, will be published on website www.concordia.com, www.tenderwizard.com/CIL and Central Procurement Portal (CPI) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

GGM(P&S/ Area-II)
Phone no.011-41222907

केनरा बैंक Canara Bank
(A Government of India Undertaking)

H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002. www.canarabank.com

NOTICE FOR EXERCISE OF CALL OPTION AND PAYMENT OF INTEREST & REDEMPTION AMOUNT IN RESPECT OF 8.30% CANARA BANK NON CONVERTIBLE, TAXABLE, PERPETUAL, SUBORDINATED, FULLY PAID UP, UNSECURED BASEL III COMPLIANT ADDITIONAL TIER 1 BOND (ISIN: INE476A08084) ISSUED ON 11th September 2020.

Notice is hereby given that the Bank has decided to exercise call option on the above Bonds on **11th September 2025** and permission from the Reserve Bank of India has already been received for the same. The Bank has fixed Tuesday, **26th August 2025** as the record date for this purpose and individual notices have also been sent to the bond holders. The Bank has made requisite disclosure to the Stock Exchanges in this regard and the same is also available On the Bank's website at www.canarabank.com

NOTICE FOR EXERCISE OF CALL OPTION AND PAYMENT OF INTEREST & REDEMPTION AMOUNT IN RESPECT OF 8.30% CANARA BANK NON CONVERTIBLE, TAXABLE, PERPETUAL, SUBORDINATED, FULLY PAID UP, UNSECURED BASEL III COMPLIANT ADDITIONAL TIER 1 BONDS (ISIN: INE476A08092) ISSUED ON 29th September 2020.

Notice is hereby given that the Bank has decided to exercise call option on the above Bonds on **29th September 2025** and permission from the Reserve Bank of India has already been received for the same. The Bank has fixed Friday, **12th September 2025** as the record date for this purpose and individual notices have also been sent to the bond holders. The Bank has made requisite disclosure to the Stock Exchanges in this regard and the same is also available On the Bank's website at www.canarabank.com

Date: 08.08.2025 Sd/-
Place: Bengaluru Company Secretary

CL educate

CL EDUCATE LIMITED
CIN: L74899DL1996PLC425162
Registered and Corporate Office: A-45, First Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi - 110044 Tel: +91 (11) 4128 1100, Fax: +91 (11) 4128 1101, E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on August 07, 2025, approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

The Unaudited Financial Results along with the Limited Review Report (with unmodified opinion) have been posted on the Company's website at <https://www.cleducate.com/quarterly-results.html> and can be accessed by scanning the following QR code.



For CL Educate Limited
SD/-
Nikhil Mahajan
Executive Director and Group CEO Enterprise Business
DIN:00033404

Place: New Delhi
Date: Aug 07, 2025

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprises - Navratna CPSE)
CIN: L74899DL1999GOI101707

Registered Office: 4th Floor, Tower-D, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029, India
Website: www.ircctc.com, Email ID: investors@ircctc.com, Telephone: 011-26181550/51

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND DIVIDEND INFORMATION

1. Notice is hereby given that that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on **Saturday, August 30, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice convening the 26th AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other relevant Circulars issued by MCA and SEBI from time to time.

2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules 2014, the electronic copies of the Notice convening 26th AGM together with the Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to all the members of the Company through electronic mode, whose email ids are registered with the RTA/Depositories in accordance with MCA/SEBI circulars as mentioned above. The dispatch of the notice along with Annual Report for FY 2024-25 through e-mails has been completed on August 07, 2025. Further, pursuant to Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter providing the web-link to access the Annual Report, including the exact path, is being sent to those members who have not registered their email address with the Company/RTA/Depositories/Depository Participants.

3. Detailed instructions to the Members for registration of their email addresses, manner of participating in the 26th AGM through VC/OAVM including manner of e-voting is set out in the Notice of the AGM. Members who hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the AGM can log on to the e-voting website www.evotingindia.com by using their credentials. Members are requested to read instructions contained in this regard in the Notice.

4. Notice and Annual Report of the Company are available at Company's website at www.ircctc.com and on the website of the Stock Exchanges, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

5. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity shares of the Company as on **Saturday, August 23, 2025**.

6. Members may attend the 26th AGM through one-way live "Webcast" on Saturday, August 30, 2025 from 12: 30 PM, onwards till conclusion of the AGM, by using their remote e-voting credentials.

7. The facility for voting shall also be made available during the 26th AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through e-voting system during the 26th AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 26th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

8. The members are informed that:

a) The remote e-voting shall commence on **Wednesday, August 27, 2025 at 9.00 A.M (IST) and ends on Friday, August 29, 2025 at 5.00 P.M. (IST);**

b) Remote e-voting shall not be allowed beyond **5.00 P.M. (IST) on Friday, August 29, 2025;**

c) Any person whose name appears in the register of Members/beneficial owners as on the **cut-off date i.e. Saturday, August 23, 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, and as well as e-voting system during the 26th AGM;

d) Any person who becomes member of the company after dispatch of the notice of meeting and holding shares as on the **cut-off date Saturday, August 23, 2025** may obtain the user id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com;

e) The remote e-voting module will be disabled after the date and time as aforementioned. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; and

9. Manner of registering/ updating KYC details / email address:

(i) Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending relevant documents to the RTA of the Company i.e. Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension New Delhi-110055, or scanned copy on email at kycupdate@alankit.com through their registered mail id;

(ii) Members, holding shares in dematerialized mode are requested to contact their Depository Participant (DP) and register their email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

10. The Board of Directors of the Company at their meeting held on May 28, 2025 has recommended a final dividend of ₹1.00/- per share on the face value of ₹2/- per share, subject to approval of the Shareholders at the 26th AGM. In accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, members are requested to submit the relevant documents in accordance with the provisions of the Act. A detailed notice regarding "Communication w.r.t. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2024-25" is hosted at the website of the Company, which may be accessed by clicking on Web-link: <https://www.ircctc.com/request-to-shareholders-for-updation-of-their-email-address.html>. For more details, please refer to the Notes to the Notice of 26th AGM.

11. The Company has fixed **Friday, August 22, 2025, as the 'Record Date'** for determining entitlement of members for final dividend for the financial year ended March 31, 2025, if approved at the AGM.

12. Ms. Balika Sharma (M. No.: 4816 and C. P. No.: 3222), Practicing Company Secretary has been appointed as "Scrutinizer" to scrutinize the remote e-voting process and e-voting during the AGM, in a fair and transparent manner.

13. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatall Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

14. Members are requested to read carefully all the Notes set out in the Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting at the AGM.

By order of the Board of Directors
Sd/-
(Suman Kalra)
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Dated: August 07, 2025

स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड

CIN: L72200DL1985PLC019763

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - II, नई दिल्ली - 110024

कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307

वेबसाइट: www.skywebindia.in, ई-मेल: info@skywebindia.in, फोन नं.: 011-29840906

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का उद्घरण

व्यूआर कोड 	सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी है। उल्लिखित वित्तीय परिणाम और उस पर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.skywebindia.in पर https://www.skywebindia.in/upload/Sky-webUAFRJune2025.pdf लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं और बायीं ओर दिए गए त्वरित प्रतिक्रिया ("व्यूआर") कोड को स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है:
---	--

बोर्ड की ओर से स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड हस्ता./ रेणु गुप्ता पूर्णकालिक निदेशक
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 7 अगस्त, 2025



आंचलिक कार्यालय: बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम तल, अवस्थी कॉम्प्लेक्स, डीएम चौराहा के पास, हरदोई-241001 (उ.प्र.), फोन: 05852-297603

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, परिशिष्ट-4-ए, नियम 8 के तहत अनंतिम (6)

राष्ट्र-ई-नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संरक्षेसी) अधिनियम, 2002 नियम 8 (6) एवं 9(1) के असीन बैंक के पास बंधक अवल सम्पत्ति है। यह नोटिस सार्वजनिक रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और गारंटोर (गारंटोरों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारी शाखा के साथ विन्यासित श्रम खातों में वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित हेतु विन्यासित सम्पत्ति भौतिक कच्चा इस बैंक देयों के वसूली हेतु 'जैसा है, जहां है,' आधार पर तथा 'जैसे है, जो है,' के आधार पर विक्रय की जायेगी।

ईएमडी / रस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.08.2025 को सायं 04:00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 26.08.2025, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्रम सं०	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं कच्चा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (रु.)
शाखा कछौना (बालामऊ), वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाईल: 8299752060			
1.	श्री अरुण कुमार सोनी पुत्र श्री विनोद कुमार सोनी (उधारकर्ता सह बंधककर्ता), पता: 101, कछौना बाजार पुरवा, पाटसेनी, जिला हरदोई-241126 (सूपी)। श्रीमती शिखा सोनी पत्नी श्री अरुण कुमार सोनी (गारंटोर), पता: 101, कछौना बाजार पुरवा, पाटसेनी, जिला हरदोई-241126 (सूपी)। बकाया राशि: 9,54,426.30 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी।	संपत्ति भूमि संख्या 253 का भाग, ग्राम कुकुली, कछौना, परगना एवं तहसील संडीला, जिला हरदोई-241126 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, मालिक श्री अरुण कुमार सोनी पुत्र श्री विनोद कुमार सोनी, जिसका क्षेत्रफल 66.92 वर्ग मीटर है। चौहद्दी: पूर्व: सर्वेश का प्लाट, पश्चिम: 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: लक्ष्मी नारायण गुप्ता का प्लाट, दक्षिण: आराजी राम खेलावन गुप्ता। कच्चा प्रकार: सांकेतिक कच्चा।	रु. 14,38,000/- रु. 1,43,800/-
शाखा शाहजहांपुर, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाईल: 9955999143			
2.	मेसर्स एन एच टेक्सटाइल्स (प्रोप्राइटरशिप), पता: गिरिजा कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, सदर पुलिस स्टेशन के सामने, शाहजहांपुर - 242001 (सूपी)। श्रीमती नजमी खान पत्नी लईक अली खान (प्रोपराईटर/ बंधककर्ता), पता: 72, बाइजूई 2, शाहजहांपुर 242001 (सूपी)। बकाया राशि 56,72,650.24 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी।	आवासीय संपत्ति का सामयिक बंधक भाग, मोहल्ला बाइजूई द्वितीय, परगना एवं तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर में स्थित, मालिक श्रीमती नजमी खान पत्नी श्री लईक अली खान, जिसका क्षेत्रफल 126.47 वर्ग मीटर। चौहद्दी: पूर्व: तारा चंद का मकान, पश्चिम: मोहम्मद हनीफ खान का मकान, उत्तर: बरदर खान, नव्यू एवं शफीउल्लाह का मकान, दक्षिण: रास्ता खड़गा एवं जियाउद्दीन का मकान। ज्ञातभार: शून्य। कच्चा प्रकार: सांकेतिक कच्चा।	रु. 50,58,000/- रु. 5,05,800/-
शाखा बरख्सा, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाईल: 7007165221			
3.	श्रीमती सोनी सिंह पत्नी विजय सिंह पता: मुंसिपल नं. 7/199, आवास विकास संख्या 6/254, सेक्टर-6, आवास विकास कॉलोनी, लोहिया पुरम, फर्रुखाबाद - 209625 (उ.प्र.)। बकाया राशि 15,18,710.40 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी।	भूमि और ईमारत का सामयिक भाग जो मुंसिपल नं. 7/199, आवास विकास नं. 6/254, सेक्टर-6, आवास विकास कॉलोनी, लोहिया पुरम, फर्रुखाबाद - 209625 (सूपी) में श्रीमती सोनी सिंह पत्नी विजय सिंह के नाम से स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 30.67 वर्ग मीटर है। चौहद्दी: पूर्व: मकान नं. 6/255, पश्चिम: मकान नं. 6/253, उत्तर: आवास विकास योजना चौहद्दी, दक्षिण: 3 मीटर पथ। कच्चा प्रकार: सांकेतिक कच्चा।	रु. 14,78,000/- रु. 1,47,800/-
शाखा फर्रुखाबाद, मुख्य प्रबंधक, मोबाईल: 9936773744			
4.	श्री इरफान खान पुत्र हफीजुर्हमान। पता-1: मकान नंबर 6/119, अल्लाह नगर, बरहपुर (दिग्गी ताल), तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद। पता-2: हाउस नंबर 1/26, हाथीखाना, फतेहगढ़, साजिद हाउस, फतेहगढ़ - 209601, जिला फर्रुखाबाद। बकाया राशि: 21,67,662.24 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी।	भूमि और ईमारत का सामयिक भाग जो मकान नं. 6/119, अल्लाह नगर, बरहपुर (दिग्गी ताल), तहसील सदर, फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद में श्री इरफान खान पुत्र हफीजुर्हमान के नाम से स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 98.37 वर्ग मीटर है। चौहद्दी: पूर्व: श्री आलोक मिश्रा का मकान, पश्चिम: रास्ता सरकारी 14 फीट, उत्तर: श्री तारिक वाला का मकान, दक्षिण: मुबीन का प्लॉट। कच्चा प्रकार: सांकेतिक कच्चा।	रु. 23,70,000/- रु. 2,37,000/-
शाखा सीतापुर, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाईल: 9519725088			
5.	श्रीमती सुखनसीब पत्नी श्री बबलू (उधारकर्ता सह बंधककर्ता), 164, नरोत्तम नगर, अंशिक सिधौली, सीतापुर 261054 (सूपी)। श्री बबलू पुत्र श्री मो. हाशिम (सह-उधारकर्ता), 164, नरोत्तम नगर, अंशिक सिधौली, सीतापुर 261054 (सूपी)। बकाया राशि: 38,09,840.07 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी।	आवासीय संपत्ति का सामयिक बंधक भाग, गाटा संख्या 501, मोहल्ला सिद्धेश्वरनगर, तहसील सिद्धौली, सीतापुर - 261303 (उत्तर प्रदेश) में श्रीमती सुखनसीब पत्नी बबलू के नाम पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 182.00 वर्ग मीटर है। चौहद्दी: पूर्व: राम दुबारे का प्लॉट, पश्चिम: बैवा गोडिया का प्लॉट, उत्तर: पंडित जी का प्लॉट, दक्षिण: 8 फीट चौड़ी सड़क। ज्ञातभार: शून्य। कच्चा प्रकार: सांकेतिक कच्चा।	रु. 29,70,000/- रु. 2,97,000/-
शाखा लखीमपुर खीरी, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाईल: 9889602580			
6.	मेसर्स कंस्ट्रक्शन हाउस (प्रोप्राइटरशिप) 272, हाथीपुर नॉर्थ, लखीमपुर सिटी, अजमेरी मस्जिद के पास, परगना और जिला खीरी, सूपी 262701। श्रीमती हलीमा परवीन पत्नी दिनेश चंद्र सक्सेना (प्रोपराईटर/ उधारकर्ता) मकान नंबर 681 (पुराना), 272 (नया), हाथीपुर नॉर्थ, लखीमपुर सिटी, अजमेरी मस्जिद के पास, परगना और जिला खीरी, सूपी 262701। श्री सैफ जहीर पुत्र जहीरुल इस्लाम (गारंटोर) मोहल्ला ईदगाह, लखीमपुर खीरी 262701 (सूपी)। श्री पिकू सक्सेना पुत्र दिनेश चन्द्र सक्सेना (गारंटोर) मुहल्ला भुईकोरवानाथ, मेला मैदान, लखीमपुर खीरी 262701 (उ.प्र.)। बकाया राशि: 20,70,271.96 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क प्रभावी।	भूमि और ईमारत मकान संख्या 681 (पुराना), 272 (नया), हाथीपुर उत्तर, लखीमपुर शहर, अजमेरी मस्जिद के पास, परगना और जिला खीरी, उत्तर प्रदेश 262701 में स्थित, मालिक श्रीमती हलीमा परवीन पत्नी दिनेश चंद्र सक्सेना, जिसका क्षेत्रफल 209.107 वर्ग मीटर है। चौहद्दी: पूर्व: विमला देवी का प्लॉट, लाइन 45 फीट, पश्चिम: क्रेता का घर और हनीफ का प्लॉट, उत्तर: रोड खड़गा लाइन 50 फीट, दक्षिण: सयारा का घर। कच्चा प्रकार: सांकेतिक कच्चा।	रु. 31,88,000/- रु. 3,18,800/-

नियम एवं शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिट के वेब पोर्टल पर दिए गए लिंक को देखें i.e. <https://www.bankofindia.co.in>, <https://baanet.net> अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित एजीएम / मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रबंधक को ऊपर दी गई शाखाओं व उनके फोन नम्बर पर सम्पर्क करें। उपर्युक्त श्रेणी / जमानतकर्ता / बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया ब्याज व अन्य खर्च सहित जमा कर दें इसमें असफल होने पर उक्त सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज व लागत सहित वसूल की जायेगी।

इसे नियम 8(6) एवं 9(1) सिक्योरिटी इन्व्स्टेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के तहत बंधककर्ता / गारंटोर को नोटिस समझा जाए, उसके वर्णित श्रम के सम्बंध में उपरोक्त दिनांक को ई-नीलामी है।

दिनांक 08.08.2025 स्थान: हरदोई प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on August 07, 2025, approved the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results").

The unaudited Financial Results along with the Limited Review Report, have been hosted on the Company's website at <https://www.dreamfolks.com/results-and-reports.html> and can be accessed by scanning the QR Code.

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 47(1) read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board Dreamfolks Services Limited Sd/- Chairperson and Managing Director DIN: 06849062	
Place: Gurugram Date: August 07, 2025	

Dreamfolks Services Limited, Regd. Office: 26, DDA Flats, Shivalik Road, Panchsheel Park, South Delhi, New Delhi-110017
Tel.: 0124-4037306, Email: investor.support@dreamfolks.in, Website: www.dreamfolks.com, Corporate Identification No. (CIN): L51909DL2008PLC177481



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan this QR Code to view the Addendum)



A-ONE STEELS INDIA LIMITED

Our Company was incorporated as "A-One Steel and Alloys Private Limited", a private limited company under the Companies Act, 1956 through a certificate of incorporation dated April 9, 2012, issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bangalore. Subsequently, the name of our Company was changed to "A-One Steels India Private Limited" pursuant to a board resolution dated May 6, 2024, and shareholders' resolutions at the extraordinary general meeting held on May 6, 2024 and a fresh certificate of incorporation dated June 29, 2024 consequent to change of name was issued by the Central Processing Centre, Registrar of Companies, at Gurgaon. Our Company was then converted into a public limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution adopted by our Shareholders on August 30, 2024, consequent to which, the name of our Company was changed to 'A-one Steels India Limited' and a fresh certificate of incorporation, consequent upon change of name, was issued to our Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre on December 23, 2024. For further details, see "History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company" on page 261 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 30, 2024 ("DRHP").

Corporate Identity Number: U28999KA2012PLC063439
Registered Office: A-One House No. 326, CQAL Layout, Ward No. 08, Sahakamagar, Bangalore – 560 092, Karnataka, India
Contact Person: Pooja Sara Nagaraja, Company Secretary and Compliance Officer; Tel.: 080-4564 6000
E-mail: legal@aonesteelgroup.com; Website: www.aonesteelgroup.com

NOTICE TO THE INVESTORS: ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED DECEMBER 30, 2024 ("THE ADDENDUM")

OUR PROMOTERS: SANDEEP KUMAR, SUNIL JALLAN AND KRISHAN KUMAR JALAN

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF A-ONE STEELS INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 65,000 LAKHS (THE "OFFER"). THE OFFER COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 60,000 LAKHS BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 LAKHS COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,000 LAKHS BY SANDEEP KUMAR, UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 2,000 LAKHS BY SUNIL JALLAN AND UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 1,000 LAKHS BY KRISHAN KUMAR JALAN (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND COLLECTIVELY THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND EACH INDIVIDUALLY, AS A "SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH OFFER FOR SALE OF EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE"). THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[●] (CONSTITUTING UP TO 5% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR PURCHASE BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WOULD CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL. OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●]% (EQUIVALENT TO ₹[●] PER EQUITY SHARE) TO THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT").

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE [●], AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION, AND ALL EDITIONS OF [●], A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION AND [●] EDITIONS OF [●], A KANNADA REGIONAL DAILY NEWSPAPER (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF THE PLACE WHERE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY IS SITUATED I.E. BANGALORE, KARNATAKA), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

This Addendum is in reference to the Draft Red Herring Prospectus filed with SEBI and the Stock Exchanges in relation to the Offer. In this regard, potential Bidders may note that the Company, in consultation with the relevant stakeholders, proposes to make certain disclosures which were inadvertently not disclosed or were inadequate in the chapter titled "Definitions and Abbreviations", "Our Subsidiaries" and "Outstanding Litigation And Material Developments" beginning on pages 3, 274 and 367 respectively of the Draft Red Herring Prospectus.

Accordingly, the sections titled "Definitions and Abbreviations", "Our Subsidiaries" and "Outstanding Litigation And Material Developments" beginning on pages 3, 274 and 367 respectively, of the DRHP, shall be appropriately updated in the Red Herring Prospectus and the Prospectus to reflect the updated information indicated in this Addendum besides other customary updation.

The changes conveyed by way of this Addendum are to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and, accordingly, the corresponding references in the Draft Red Herring Prospectus stand updated pursuant to this Addendum. The information in this Addendum supplements the Draft Red Herring Prospectus and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus, as applicable. However, this Addendum does not purport to, nor does it, reflect all the changes that have occurred from the date of filing of the Draft Red Herring Prospectus and the date of this Addendum. Accordingly, this Addendum does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges.

Please note that all details and the information included in the Draft Red Herring Prospectus will be suitably updated, including to the extent updated by way of this Addendum, as may be applicable, in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges. Investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus or this Addendum for any investment decision, and should read the Red Herring Prospectus, as and when it is filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision with respect to the Offer.

This Addendum has been approved and adopted by the Board in their meeting dated August 7, 2025.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws.

Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

This Addendum which has been filed with SEBI and the Stock Exchanges shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing with SEBI and will be available on their website www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com, the website of the Company i.e. www.aonesteelgroup.com, and the websites of BRLMs, i.e., PL Capital Markets Private Limited at www.plindia.com and Khambatta Securities Limited at www.khambattasecurities.com.

All capitalized terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE ISSUE
 PL Capital Markets Private Limited 3 rd Floor, Sadhana House, 570, P.B. Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra - 400 018, India Tel.: +91 22 6632 2222 Email: aonesteelsipo@plindia.com Website: www.plindia.com Investor grievance e-mail: grievance-mbd@plindia.com Contact Person: Narendra Gamin/Tanmay Jagetiya SEBI Registration Number: INM000011237	 Khambatta Securities Limited 806, World Trade Tower, Tower B, Noida Sector-16, Uttar Pradesh-201301, India Tel.: +91 9953989693; 0120 4415469 E-mail: ipo@khambattasecurities.com Website: www.khambattasecurities.com Investor grievance e-mail: mbcomplaints@khambattasecurities.com Contact Person: Chandan Mishra/Nisha Shaw SEBI Registration Number: INM000011914	 Bigshare Services private Limited Office No. S-62, 6 th floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road Andheri (East), Mumbai – 400093 Tel: +91 22 6263 8200 E-mail: ipo@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor grievance e-mail: investor@bigshareonline.com Contact person: Vinayak Morbale SEBI Registration No.: INR000001385

For A-One Steels India Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pooja Sara Nagaraja,
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: A-ONE STEELS INDIA LIMITED is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated December 30, 2024 with the SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of the Company at www.aonesteelgroup.com, SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and the BRLMs, i.e. PL Capital Markets Private Limited and Khambatta Securities Limited at www.plindia.com and www.khambattasecurities.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

Adfactors